

417056



47505/47805/48405/48705

Reg. No.

--	--	--	--	--	--	--	--

IV Semester B.B.A/B.C.A/B.S.S.T/B.S.W/(NEP) Degree Examination,  
September/October-2023

HINDI

- 1) एक और द्रोणाचार्य
- 2) संक्षेपण, पल्लवन

PAPER - AECC

(Regular)

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 60

I. किन्हीं दस प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए।

(10×1=10)

1. 'एक और द्रोणाचार्य' इस नाटक के रचनाकार कौन है?
  - अ) डॉ.शंकर शेष
  - ब) प्रेमचन्द
  - क) यशपाल
2. 'चन्द्र' को नकल करते हुए किस प्रोफेसर ने पकड़ा?
  - अ) अरविंद
  - ब) प्रो.मिश्रा
  - क) विमलेंद्रू
3. अरविंद की पत्नी का नाम क्या है?
  - अ) अनुराधा
  - ब) कृपी
  - क) लीला
4. 'राजकुमार' किसका लड़का था?
  - अ) अरविंद
  - ब) प्रेसिडेंट
  - क) प्रींसीपल
5. द्रोणाचार्य किससे बदला लेना चाहता था?
  - अ) द्रुपद
  - ब) भीष्म
  - क) एकलव्य

P.T.O.



6. अनुराधा पर बलात्कार कौन करने की कोशिश करतो है?
- अ) अरविंद
  - ब) चन्दू
  - क) राजकूमर
7. रिपोर्ट वापस लेने के लिए प्रेसीडेंट अरविंद को किस पद का लालच देता है?
- अ) प्रोफेसर
  - ब) वाईस प्रिंसिपल
  - क) प्रिंसिपल
8. द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या गुरु-दक्षिणा मांगी?
- अ) अंगुठा
  - ब) राज्य
  - क) कुछ नहीं
9. 'एक और द्रोणाचार्य' इस नाटक में अश्वत्थामा नाम का कौन मारा गया?
- अ) हाथी
  - ब) द्रोणाचार्य का पुत्र
  - इ) विमलेंद्रू
10. अनुराधा पर होने वाले दुष्कर्म का गवाह कौन है?
- अ) अरविंद
  - ब) यदू
  - क) चन्दू
11. अरविंद की माँ किस रोग से पिड़ीत थी?
- अ) दमारोग
  - ब) कैंसर
  - क) क्षय रोग
12. अश्वत्थामा कौन है?
- अ) द्रोणाचार्य का पुत्र
  - ब) अरविंद का पुत्र
  - क) कोई नहीं

## II. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

(2×10=20)

1. शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार और मध्यमवर्ग के अध्यापक की विवशता का चित्रण 'एक और द्रोणाचार्य' नाटक में किस तरह किया गया है, स्पष्ट कीजिए।
2. अरविंद का चरित्र-चित्रण कीजिए।
3. 'एक और द्रोणाचार्य' नाटक में महाभारत के कथानक को आधुनिक काल के साथ किस तरह जोड़ा गया है, स्पष्ट कीजिए।
4. द्रोणाचार्य की तरह अरविंद भी किस तरह सत्ता का आगे झुक जाता है, लिखिए।

## III. संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए।(किन्हीं तीन)

(3×5=15)

1. "अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की एक बूँद नहीं जुटा सकता उसके मुँह से बदले की भाषा वाचालता है।"
2. "जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा, तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा।"
3. "मेरी वुजदिनी ने मार डाला उसे।"
4. "दुसरोँ का नकाब उतारने की कोशिश मे खुद नंगा हो जानेवाला मैं..... मुझ पर थुको।"
5. "अब तुम निश्चित रहो। अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है।"

## IV. निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेपण कर, उचित शीर्षक दिजिए।

(1×10=10)

बेरोजगारी किसी भी देश के विकास की प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं बेरोजगारी का कारण बनती हैं। इस समस्या को खत्म करने लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। यह केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है।

देश की अबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मौसमी व्यवसाय होने के कारण यह केवल वर्ष के एक निश्चित समय के लिए काम का अवसर प्रदान करता है। देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि बहुत धीमी है। इस प्रकार इस क्षेत्र में रोजगार अवसर सिमित है।

देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। हालांकि सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई कार्यक्रम शुक किए हैं पर अभी तक वांछनीय प्रगति हासिल नहीं हो पाई है।

## V. निम्नलिखित भाव पल्लवन कीजिए।(कोई एक)

(1×5=05)

1. जहाँ चाह, वहाँ राह।
2. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।

1 308089



44513

Reg. No.

--	--	--	--	--	--	--	--

IV Semester B.B.A. 4 Degree Examination, September/October - 2023

**COST ACCOUNTING**

(Repeater)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 80

*Instructions to Candidates :*

- 1) Write question numbers correctly.
- 2) Simple calculator is allowed
- 3) Section - D is compulsory.

**SECTION - A**

Answer any **TEN** questions. Each question carries **TWO** marks.

(10×2=20)

1.
  - a) What is cost accounting?
  - b) What is fixed cost?
  - c) What is Reorder level?
  - d) What do you mean by Time booking?
  - e) What is machine hour rate?
  - f) What is LIFO method?
  - g) What is Rowan Plan?
  - h) Mention any two examples of non-cost items.
  - i) What is Idle time?
  - j) Define Process costing.
  - k) What do you mean by apportionment?
  - l) Mention any two administrative overheads in cost sheet.

**SECTION - B**

Answer any **FOUR** questions . Each question carries **FIVE** marks .

(4×5=20)

2. Define costing. Explain its advantages and disadvantages.
3. Explain classification of overheads.
4. A bus runs between Mysore and Bangalore for 30 days in a month covering a distance of 150 kms each way, making a round trip daily. The normal capacity of the bus is 60 passengers . It is generally full. Calculate the total passenger kms.

P.T.O.





5. Calculate earnings per hour of shri. Mayur under Halsey and Rowan Plan.

Wages per hour	-	Rs. 30
Standard time fixed for job	-	40 hours
Time taken	-	30 hours

6. Calculate

- 1) Re-order level
- 2) Re-order quantity
- 3) Maximum stock level

Minimum stock level	-	3000 units
Average stock level	-	6500 units
Minimum consumption	-	1000 units per month
Maximum consumption	-	2500 units per month
Delivery period	-	4 to 6 weeks.

7. The accounts of machine manufacturing company discloses the following information for 6 months ending 31-12-2021.

Materials used	-	Rs. 1,50,000
Direct wages	-	Rs. 1,20,000
Factory overhead	-	Rs. 30,000
Administrative expenses	-	Rs. 15,000

Prepare cost sheet of machine and calculate the price which the company should quote for the manufacture of machine requiring materials valued Rs. 1500 and expenditure in productive wages Rs. 500 so that price might yield a profit of 20% on selling price.

#### SECTION - C

Answer any **THREE**. Each question carries **TEN** marks.

(3×10=30)

8. Distinguish between cost accounting and Financial accounting.

9. A product passes through three distinct processes for completion. Three processes are A, B and C. During the week ended 31-3-2020 2000 units are produced. The following information is obtained

Particulars	Process A	Process B	Process C
Material	Rs. 10,000	Rs. 4,000	Rs. 4,000
Labour	Rs. 6,000	Rs. 6,000	Rs. 2,000
Direct Expenses	Rs.2,000	Rs. 800	Rs. 1600

The indirect expenses for the period were Rs. 5,600 apportioned for the process on the basis of wages. Prepare process accounts.

10. The following particulars relate to receipt and issues of material during May 2019.

May	4	Received 500 units at Rs. 2.00 per unit
May	8	Received 350 units at Rs. 2.10 each
May	12	Issued 600 units
May	16	Received 600 units at Rs. 2.20 each
May	20	Issued 450 units
May	24	Received 500 units at Rs. 2.30 each
May	28	Issued 500 units
May	30	Issued 100 units

Prepare stores ledger account under FIFO method.

11. The following particulars relating to a company which is having 3 production departments A, B and C and two service departments X and Y.

Overheads	A	B	C	X	Y
Total overheads as per distribution summary	6,300	7,400	2,800	4,500	2,000

The company decided to charge the service departments costs on the basis of following percentages.

Particulars	A	B	C	X	Y
X Dept	40%	30%	20%	-	10%
Y Dept	30%	30%	20%	20%	-

Find out total overheads for production departments charging service departments costs to production departments under repeated distribution method.

12. Calculate machine hour rate from the information given below:

Purchase price of machine.	Rs. 28,90,000
Installation charges	Rs. 1,10,000
Life of Machine	10 years
Working hours	2,000 hours
Repair charges	50% of depreciation
Power	40 units per hour
Rate per unit of power	Rs. 4
Oil expenses	Rs. 160 per day of 8 hours
Consumable stores	Rs. 100 per day of 10 hours



(4)

44513

**SECTION - D**  
**(Compulsory)**

(1×10=10)

13. From the following particulars you are required to prepare a statement showing

- 1) Material consumed
- 2) Prime cost
- 3) Works cost
- 4) Total cost
- 5) Profit.

Stock of finished goods on 31/12/21	Rs. 73,000
Stock of raw material on 31/12/21	Rs. 35,000
Purchases of raw material	Rs. 7,60,000
Productive wages	Rs. 5,20,000
Stock of finished goods on 31/12/22	Rs. 82,500
Stock of raw materials on 31/12/22	Rs. 37,500
Sales	Rs. 15,45,800
Works overheads charges	Rs. 1,30,200
Office and general charges	Rs. 69,700

---